



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 5, 2003 (आषाढ़ 14, 1925)
No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 5, 2003 (ASADHA 14, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय की छोड़कर) पृष्ठ	
भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	737
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय की छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	505
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	1
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	823
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1 क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर मितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय की छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय की छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड—(iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	901
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	2395
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विधिवि अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक विधायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	7541
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	177
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण	*

*आकड़े प्राप्त नहीं हुए ।

CONTENTS

	PAGE		PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	737	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	505	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Sub-ordinate Offices of the Government of India	901
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	823	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	2395
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	7641
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	177
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*		

भाग 1—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(सका मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जून 2003

संकल्प

सं० 41/19/2003-पी० एण्ड पी० डब्ल्यू (जी) — दिनांक 18 अक्टूबर, 2001 के संकल्प संख्या सं० 41/8/2001-पी० एण्ड पी० डब्ल्यू (जी) के द्वारा गठित पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति (स्कोवा) अशासकीय सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति पर राष्ट्रपति, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा स्कोवा का पुनर्गठन करते हैं :-

1. अध्यक्ष अथवा महासचिव, इंडियन एक्स-सर्विसेज लीग, नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष अथवा महासचिव, वायुसेना एसोसिएशन, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष अथवा महासचिव, अखिल भारतीय सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी संघ, दोम्बिवली, मुम्बई।
4. अध्यक्ष अथवा महासचिव, अखिल भारतीय सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारी संघ, सिकन्दराबाद।
5. अध्यक्ष अथवा महासचिव, पेंशनर्स संस्थाओं का अखिल भारतीय परिसंघ, चेन्नई।
6. अध्यक्ष अथवा महासचिव, अखिल भारतीय डाक और तार एवं अन्य संगठन, पटना।
7. अध्यक्ष अथवा महासचिव, पेंशनभोगी स्वैच्छिक संगठन, लखनऊ।
8. अध्यक्ष अथवा महासचिव, भारत पेंशनर्स समाज, नई दिल्ली।

9. अध्यक्ष अथवा महासचिव, केन्द्रीय सरकार पेंशनभोगी समन्वय समिति, चंडीगढ़।
 10. अध्यक्ष अथवा महासचिव, डाक व तार और अन्य केन्द्रीय सरकार पेंशनभोगी संगठन, अहमदाबाद।
 11. अध्यक्ष अथवा महासचिव, सेवानिवृत्त दूरसंचार अधिकारी केन्द्र, कोलकाता।
 12. अध्यक्ष अथवा महासचिव, अखिल भारतीय पेंशनभोगी संगठन और केन्द्र, बीपाल।
2. पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अपर सचिव समिति के संयोजक तथा सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
3. अशासकीय सदस्यों की अवधि 31 मार्च, 2005 तक होगी।
 4. स्कोवा जब आवश्यक समझेगी अपनी बैठक करेगी।
 5. स्कोवा निम्नलिखित उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करेगी :-
 - (i) विभाग के योजना-सार्थकता का फोड ब्रैट मुहैया कराना।
 - (ii) नीति अभिक्रम पर चर्चा और समीक्षक जाँच करना, और
 - (iii) सरकारी कार्रवाई की पूर्ति हेतु स्वैच्छिक उपाय जुटाना।

6. स्कोवा की बैठक में उपस्थिति हेतु अशासकीय सदस्यों को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता एस० आर० 190 के उपबंधानुसार और इस संबंध में समय-समय पर जारी भारत सरकार के आदेशों के अनुसार विनियमित होंगे।

7. इसमें शामिल व्यय की पूर्ति कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय को स्वीकृत बजट अनुदान में से की जाएगी।

आदेश

आदेश है कि संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित होगा।

आदेश यह भी कि संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और अन्य सभी संघितों को प्रेषित की जाए।

आर० के० गोयल, निदेशक

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 मई 2003

संकल्प

सं० 11015/1/2002-हिंदी—इस मंत्रालय के दिनांक 28 जनवरी, 2002 के समसंख्यक संकल्प के अनुक्रम में उपर्युक्त संकल्प में निम्नानुसार संशोधन किए जाते हैं :—

“गठन” शीर्षक के अंतर्गत क्रम सं० 3(2) में डॉ० बी० मित्रेयन, संसद सदस्य (राज्य सभा)—सदस्य की प्रविष्टि को जोड़ा जाए।

MINISTRY OF PERSONNEL, P. G. & PENSIONS
(DEPARTMENT OF PENSION & P. W.)

New Delhi, the 20th June 2003

RESOLUTION

No. 41/19/2003-P&PW (G).—Consequent on the expiry of the term of the office prescribed for the Non-Official members of the Standing Committee of Voluntary Agencies (SCOVA) for the Department of Pension & Pensioners' Welfare constituted under resolution No. 41/8/2001-P&W(G) dated 18th October, 2001, the President is pleased to reconstitute the SCOVA with the following composition :—

1. President or General Secretary
Indian Ex-Services League
New Delhi.
 2. President or General Secretary
Air Force Association
New Delhi.
 3. President or General Secretary
All India Retired Railwaymen's Federation
Dombivelli
Mumbai.
 4. President or General Secretary
All India Retired Railway Officers Associations
Secunderabad.
 5. President or General Secretary
All India Federation of Pensioners' Association
Chennai.
 6. President or General Secretary
All India P&T and other Associations
Patna.
 7. President or General Secretary
Voluntary Organisation of Pensioners
Lucknow.
 8. President or General Secretary
Bharat Pensioners' Samaj
New Delhi.
 9. President or General Secretary
Coordination Committee of Central Govt. Pensioners
Chandigarh.
 10. President or General Secretary
Posts & Telegraph and other Central Govt.
Pensioners Association
Ahmedabad.
 11. President or General Secretary
Center of Retired Telecom Officers
Kolkata.
 12. President or General Secretary
Central and All India Service Pensioners Association
Bhopal.
2. The Additional Secretary in the Department of Pension & Pensioners' Welfare will function as the Convener and Member Secretary of the Committee.

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जयति चन्द्रा, संयुक्त सचिव

3. The term of the non-official members will be upto 31st March 2005.

4. The SCOVA will hold its meeting as often as may be necessary.

5. The SCOVA will function to promote the following objectives :—

- (i) To provide a feed back to program implementation of the Department.
- (ii) To discuss and critically examine the policy initiative; and
- (iii) To mobilize voluntary efforts to supplement the Government action.

6. Travelling Allowance and Daily Allowance to Non official members for attending the meeting of the SCOVA shall be regulated in accordance with the provisions of SR 190 and orders of Government of India there under as issued from time to time.

7. The expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of Ministry of Personnel, Pensioners Grievances & Pensions.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments/Administrations of Union Territories, Ministries/Departments of the Government of India and all other concerned.

R. K. GOEL, Director

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
New Delhi-1, the 13th May 2003

RESOLUTION

No. 11015/1/2002-Hindi.—In continuation of the Ministry's resolution of even number dated 28th January, 2002 the following amendments are made in the above mentioned resolution :—

Under the title Composition at Sl. No. 3 (2) entry regarding Dr. V. Maitreyan, M. P. (Rajya Sabha)-Member may be added.

ORDER

Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the Members of the Committee, all State Government and Union Territory Administrations, all Ministries/Departments of the Government of India, President's Sectt. Prime Minister's Office, Cabinet Sectt. Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha, Rajya Sabha Sectt., Planning Commission and Controller and Auditor General of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for General information.

JAYATI CHANDRA, Jt. Secy.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई, 2003

नियम

सं. 5/25/2003 सी.एस.1.—निम्नलिखित सेवाओं के अनुभाग अधिकारी ग्रेड और आशुलिपिक (ग्रेड-1/ग्रेड-ख) की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 2003 में ली जाने वाली सम्मिलित सीमित अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड-ख/ग्रेड-1) विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के नियम संबंधित मंत्रालयों की सहमति से सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

वर्ग-1

केन्द्रीय सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

वर्ग-2

भारतीय विदेश सेवा शाखा "ख" के सामान्य संवर्ग का अनुभाग अधिकारी ग्रेड (समेकित ग्रेड-2 और 3)

वर्ग-3

रेलवे बोर्ड सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

वर्ग-4

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का विलीन (मर्ज्ड) ग्रेड "क" तथा "ख"

वर्ग-5

भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' के आशुलिपिक संवर्ग का ग्रेड-I

वर्ग-6

सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा का विलीन (मर्ज्ड) ग्रेड "क" तथा "ख"

वर्ग-7

रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ख'

वर्ग-9

सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

1. प्रत्येक ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए चयन किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए पद सरकार द्वारा निश्चित रिक्तियों को देखते हुए आरक्षित रखे जाएंगे।

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट में निर्धारित ढंग से ली जायेगी।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

3. नीचे कालम 1 में उल्लिखित ग्रेडों और सेवाओं के स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अधिकारी जो पहली जुलाई, 2003 को कालम 2 में उल्लिखित सेवा की अवधि से संबंधित शर्तें पूरी करते हैं, कालम 3 में उल्लिखित सेवा के वर्ग के लिए परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

कालम 1	कालम 2	कालम 3
1	2	3
केन्द्रीय सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड में अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II/ग्रेड 'ग' में अथवा दोनों में, जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग-1
भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' सामान्य संवर्ग का ग्रेड-IV, आशुलिपिक संवर्ग का ग्रेड-II, और साइफर उप संवर्ग का ग्रेड-II	भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' के सामान्य संवर्ग के ग्रेड-IV में अथवा आशुलिपिक संवर्ग के ग्रेड-II अथवा साइफर उप संवर्ग के ग्रेड-II में अथवा ऊपर के दोनों में या सभी ग्रेडों में, जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग-2
रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड और रेलवे बोर्ड आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'	रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II/ग्रेड 'ग' में अथवा दोनों में, जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग-3
केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II/ग्रेड 'ग' में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग-4
भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' का आशुलिपिक संवर्ग के ग्रेड-II	भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' के आशुलिपिक संवर्ग के ग्रेड-II में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग-5
सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'	सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II/ग्रेड 'ग' में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग-6
रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'	रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II/ग्रेड 'ग' में कम से कम 5 वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा हो।	वर्ग-7

1	2	3
सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा का सहायक ग्रेड, सशस्त्र सेना मुख्यालय का आशुलिपिक ग्रेड 'ग' / वैयक्तिक सचिव	सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सहायक ग्रेड/सशस्त्र सेना मुख्यालय का आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II/ग्रेड 'ग' अथवा दोनों में, जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग-9

किन्तु शर्त यह है कि किसी प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा शामिल है, के परिणामों के आधार पर यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त कालम 1 में उल्लिखित ग्रेडों में नियुक्त हो गया है, ऐसी परीक्षा निर्णायक तारीख से कम से कम 5 वर्ष पहले हो गई हो और उस ग्रेड में उसने कम से कम 4 वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा कर ली है।

टिप्पणी-1 : ऊपर के कालम 1 में उल्लिखित ग्रेडों और सेवाओं के वे स्थाई अथवा नियमित रूप में नियुक्त अधिकारी जो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियत अवधि के लिए संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, यदि अन्यथा पात्र हों, तो इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र होंगे और प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान उनके द्वारा की गई सेवा कालम 2 में उल्लिखित सेवा अवधि के लिए अर्हक होगी।

परन्तु यह कालम 1 में उल्लिखित ग्रेडों तथा सेवाओं के उन अधिकारियों पर लागू नहीं होता है जिन्हें संवर्ग बाह्य पद पर अथवा अन्य सेवा में "स्थानान्तरण" पर नियुक्त किया गया हो और जो कालम 1 में उल्लिखित ग्रेडों तथा सेवाओं में कोई पुनर्ग्रहणाधिकार नहीं रखते हैं।

टिप्पणी-2 : केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक जिन्होंने भारतीय विदेश सेवा की शाखा 'ख' में नियुक्ति के लिए विकल्प दिया हो और ऐसे विकल्प के अनुसरण में उस सेवा के किसी ग्रेड में नियुक्त कर लिए गए हों, वे वर्ग 1 और वर्ग 4 के लिए परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी-3 : केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक जो भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' में प्रतिनियुक्ति पर हैं वे वर्ग 2 तथा 5 के लिए परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र नहीं होंगे।

4. दो वर्गों के लिए प्रतियोगिता में भाग ले रहे उम्मीदवार अपने आवेदन-पत्र में अपनी पसन्द के अनुसार वर्गों का वरीयताक्रम स्पष्ट रूप में लिख दें। किसी उम्मीदवार द्वारा उनके आवेदन-पत्र में एक बार दर्शाई गई वरीयता में कुछ जोड़ने या परिवर्तन करने के किसी भी अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

5. किसी भी उम्मीदवार का आवेदन स्वीकार करने तथा परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

6. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र न हो।

7. जो उम्मीदवार निम्नलिखित के लिए दोषी है अथवा आयोग द्वारा दोषी घोषित किया गया है:--

- (1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा
- (2) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा
- (3) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य कराया है, अथवा
- (4) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा
- (5) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है, अथवा
- (6) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए, किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा
- (7) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा
- (8) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, अथवा
- (9) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा
- (10) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को प्रेरान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, अथवा
- (11) उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन किया हो, अथवा
- (12) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा कोई भी कार्य किया हो अथवा करने का प्रयास किया हो।

उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है, और उसके साथ ही उसे:--

- (क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, और/या
- (ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए:--
 - (1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए;
 - (2) केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और
- (ग) उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक:--

- (1) उम्मीदवार को भी इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(2) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर यदि कोई हो, विचार न किया गया हो।

8.(1) परीक्षा के बाद अंतिम रूप से प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए अंकों के आधार पर आयोग योग्यताक्रम से उम्मीदवारों की सूची बनाएगा, और उसी क्रम से जितने उम्मीदवार अर्हता प्राप्त समझे जाएंगे उन्हें अपेक्षित संख्या तक प्रत्येक वर्ग की चयन सूची में शामिल करने के लिए आयोग द्वारा अनुशंसा की जाएगी।

(2) किसी भी अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक आयोग द्वारा मानक में छूट देकर सिफारिश की जा सकती है बशर्ते कि ये उम्मीदवार प्रत्येक वर्ग की सूची में शामिल किए जाने के लिए उपयुक्त हों चाहे परीक्षा के योग्यताक्रम में उनका कोई भी स्थान क्यों न हो।

परन्तु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के जिन उम्मीदवारों की अनुशंसा आयोग द्वारा परीक्षा के किसी भी चरण में अर्हता या चयन मापदंडों में रियायत/छूट दिए बिना की जाती है, उनका समायोजन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों में नहीं किया जाएगा।

नोट :— उम्मीदवारों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है, न कि अर्हक परीक्षा। परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रत्येक चयन सूची में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या नियत करने के लिए सरकार पूरी तरह से सक्षम है। अतः कोई भी उम्मीदवार इस परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर चयन सूची में शामिल किए जाने के लिए अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेगा।

9. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार किया जाएगा। आयोग परीक्षाफल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा।

10. परीक्षा में पास हो जाने मात्र से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में कार्यसंचालन की दृष्टि से चयन के लिए हर प्रकार से योग्य है।

परन्तु आयोग द्वारा चयन के लिए अनुशंसित किए गए किसी उम्मीदवार को चयन के लिए अपात्र मानने के बारे में निर्णय आयोग के साथ परामर्श करके किया जाएगा।

11. यदि कोई उम्मीदवार जो परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र भेजने के बाद अथवा परीक्षा में बैठने के बाद अपनी नियुक्ति से त्याग-पत्र दे देता है अथवा किसी और कारण से सेवा छोड़ देता है अथवा उससे सम्बन्ध

विच्छेद कर लेता है, अथवा उसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती है अथवा उसे किसी संवर्ग बाह्य पद पर अथवा अन्य सेवा में स्थानान्तरण पद पर नियुक्त कर दिया जाता है और केन्द्रीय सचिवालय सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सहायक ग्रेड अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "ग", अथवा भारतीय विदेश सेवा शाखा "ख" में किसी पद पर उसका अपना पुनर्ग्रहणाधिकार नहीं है तो वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह बात उस व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होती जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर दिया गया है।

12. जिन उम्मीदवारों ने 26 अक्टूबर, 1962 को जारी की गई आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन काल में अर्थात् 26 अक्टूबर, 1962 से 9 जनवरी, 1968 तक सशस्त्र सेना में नौकरी की हो और जो सशस्त्र सेना में अपनी सेवा अवधि के दौरान ली गई अनुभाग अधिकारियों की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (ओं) और अनुभाग अधिकारी ग्रेड (रेलवे बोर्ड) की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (ओं) में न बैठ सके हों, यदि इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड को चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए अन्तिम रूप से उनकी अनुशंसा की जाती है तो, उनकी वरिष्ठता भारत सरकार द्वारा जारी किए गए विशेष आदेशों के अनुसार विनियमित की जायेगी।

देवकी नन्दन गुप्ता
उप सचिव

शुद्धिपत्र

सं. 5/12/2002-के.से.-I—भारत के राजपत्र के भाग-I खण्ड-I में दिनांक 2.11.2002 को प्रकाशित अनुभाग अधिकारी ग्रेड और आशुलिपिक (ग्रेड बी/ग्रेड-I) हेतु चयन सूचियों में परिवर्धन हेतु निम्नलिखित उप पैरा को, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2002 में संयुक्त अनुभाग अधिकारियों/आशुलिपिकों (ग्रेड "बी"/ग्रेड-I) की नियमावली के नियम 8 में जोड़ा जाता है।

परन्तु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के जिन उम्मीदवारों की अनुशंसा आयोग द्वारा परीक्षा के किसी भी चरण में अर्हता या चयन मापदंडों में रियायत/छूट दिए बिना की जाती है, उनका समायोजन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों में नहीं किया जाएगा।

देवकी नन्दन गुप्ता
उप सचिव

DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING

New Delhi, the 5th July 2003

RULES

No. 5/25/2003-CS.I.—The rules for a combined S.Os'/Stenographers's (Grade 'B'/Grade-I) Limited Departmental Competitive Examination to be held by the Union Public Service Commission in 2003 for additions in the Select Lists for the Section Officers' Grade and Stenographers' (Grade 'B'/Grade-I) of the Services mentioned below are, with the concurrence of the Ministries concerned published for general information.

Category I

Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service.

Category II

Section Officers' Grade (Integrated Grade II & III) of the General Cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B'

Category III

Section Officers' Grade of the Railway Board Secretariat Service

Category IV

Grade 'A' & 'B' merged of the Central Secretariat Stenographers' Service.

Category V

Grade I of the Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B'.

Category VI

Grade 'A' & 'B' merged of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service.

Category VII

Grade 'B' of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service.

Category IX

Section Officers' Grade of the Armed Forces Headquarters Civil Service.

1. The number of persons to be selected for inclusion in the Select List for each grade will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservation shall be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

3. Permanent or regularly appointed temporary Officers of the Grades and Services mentioned in column 1 below who on 1st July 2003 satisfy the conditions regarding length of service mentioned in column 2 shall be eligible to appear at the examination for the category of service mentioned in column 3.

Column 1	Column 2	Column 3
1	2	3
Assistants' Grade of the Central Secretariat Service and Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service	Not less than 5 years' approved and continuous Service in the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service or in Grade II/Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service or in both as the case may be.	Category I
Grade IV of the General Cadre, Grade II of the stenographers' cadre and Grade II of the Cypher sub-cadre of the Indian Foreign Service Branch 'B'	Not less than 5 years' approved and continuous Service in Grade IV of the General Cadre or in Grade II of the Stenographers' cadre or in Grade II of the Cypher sub-cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B' or in two or all the above grades as the case may be.	Category II
Assistants' Grade of Railway Board Secretariat Service and Grade C of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service	Not less than 5 years' approved and continuous Service in the Assistants' Grade of the Railway Board Secretariat Service or in Grade II/Grade C of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service or in both as the case may be.	Category III
Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service	Not less than 5 years' approved and continuous service in Grade II/Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service.	Category IV
Grade II of the Stenographers' cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B'	Not less than 5 years' approved and continuous service in Grade II of the Stenographers' cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B'	Category V
Grade C of Armed Forces Headquarters Stenographers' Service	Not less than 5 years' approved and continuous service in Grade II/Grade C of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service.	Category VI
Grade C of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service	Not less than 5 years' approved and continuous service in Grade II/Grade C of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service.	Category VII
Assistants of AFHQ Civil Service, Stenographers' Grade C/PAs of the Armed Forces HQ.	Not less than 5 years' approved and continuous service in the Assistants' Grade of the Armed Forces Headquarters Service or in Grade-II/Grade 'C' of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service or in both as the case may be.	Category IX

Provided that in the case of a candidate who had been appointed to the Grades mentioned in column I above on the result of a Competitive Examination, including a Limited Departmental Competitive Examination, such an examination should have been held not less than 5 years before the crucial date and he should have rendered not less than 4 years approved and continuous service in that grade.

Note 1. Permanent or regularly appointed officers of the Grades and Services mentioned in Column I above who are on deputation to ex-cadre posts for a specified period with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible and the service rendered by them during the period of deputation will qualify towards the length of service mentioned in column 2.

This, however does not apply to the officers of the Grades and Services mentioned in Column I above who have been appointed to ex-cadre posts or to another Service on "transfer" and do not have a lien in the Grades and Services referred to in Column 1.

Note 2.—Assistants of the Central Secretariat Service and Stenographers of the Central Secretariat Stenographers' Service who have opted for appointment to the Indian Foreign Service, Branch 'B' and have been appointed to any Grade of that Service in pursuance of such option shall not be eligible for admission to the examination for Categories I and IV.

Note 3.—Assistants of the Central Secretariat Service and Stenographers of the Central Secretariat Stenographers' Service who are on deputation to the Indian Foreign Service, Branch 'B' shall not be eligible for admission to the examination for Categories II and V.

4. A candidate competing for two categories should specify in his application the Categories for which he wishes to be considered in the order of preference. No request for addition/alteration in the preferences already indicated by a candidate in his application will be entertained by the Commission.

5. The decision of the Commission with regard to the acceptance of the application of a candidate and his eligibility or otherwise for admission to the Examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds certificate of admission from the Commission.

7. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of:—

- (i) obtaining support for his candidature by any means, or
- (ii) impersonating, or
- (iii) Procuring impersonation by any person, or
- (iv) submitting fabricated document or documents which have been tampered with, or

- (v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or
- (vii) using unfair means during examination, or
- (viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter in the script(s), or
- (ix) misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination, or
- (xi) violating any of the instructions issued to candidates along with their Admission Certificates permitting them to take the examination, or
- (xii) attempting to commit or, as the case may be abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable

- (a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate, and/or
- (b) to be debarred either permanently or for a specified period—
 - (i) by the Commission from any examination or selection held by them;
 - (ii) by the Central Government from any employment under them; and
- (c) to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed, except after—

- (i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and
- (ii) taking the representation, if any submitted by the candidate within the period allowed to him into consideration.

8. (i) After the examination, candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified at the examination shall be recommended for inclusion in the Select List for each category upto the required number.

(ii) The candidates belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may to the extent of the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and

the Scheduled Tribes be recommended by the Commission by a relaxed standard, subject to the fitness of these candidates for inclusion in the Select List for each category irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes who have been recommended by the Commission without resorting to any relaxations/concessions in the eligibility or selection criteria, at any stage of the examination, shall not be adjusted against the vacancies reserved for Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

Note.—Candidate should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in each Select List on the result of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will therefore have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in this examination as a matter of right.

9. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

10. Success in the examination confers no right to selection unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in service, is eligible and suitable in all respects for selection.

Provided that the decision as to ineligibility for selection in the case of any candidate recommended for selection by the Commission shall be taken in consultation with the Commission.

11. A candidate who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment or otherwise quits the service or severs his connection with it or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the Assistants' Grades of the Central Secretariat Service/Railway Board Secretariat Service/Armed Forces Headquarters Civil Service or Stenographer Grade-C of the Central Secretariat

Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers Service/Armed Forces headquarters Stenographers' Service or any post in the Indian Foreign Service, Branch 'B' will not be eligible for appointment on the result of this examination.

This however, does not apply to a person who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

12. The seniority of candidates who joined the Armed Forces during the period of operation of the Proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962 namely 26th October, 1962 to 9th January, 1968 and who could not compete at the Section Officers' Grade Limited Departmental Competitive Examination(s) and Section Officers Grade (Railway Board) Limited Departmental Competitive Examination(s) held during the period of their service in the Armed Forces shall be regulated in accordance with the special orders issued by the Government of India in this behalf, in case they are finally recommended for inclusion in the Select List for the Section Officers' Grade on the result of the examination.

DEVKI NANDAN GUPTA
Dy. Secy.

CORRIGENDUM

No. 5/12/2002-CS.I.—The following sub-para is added to Rule 8 of the Rules for the combined Section Officers'/Stenographers' (Grade 'B'/Grade 'I') Limited Departmental Competitive Examination held by the Union Public Service Commission in 2002 for addition in the Select Lists for the Sections Officers' Grade and Stenographers' (Grade 'B'/Grade 'I') published in Part-I, Section-I of the Gazette of India dated 2.11.2002:—

"Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who have been recommended by the Commission without resorting to any relaxations/concessions in the eligibility or selection criteria, at any stage of the examination, shall not be adjusted against the vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes."

DEVKI NANDAN GUPTA
Dy. Secy.